



# SSC MTS 2023



**लक्ष्य बैच**

**अति संभावित प्रश्न**

**BASED ON PREVIOUS YEAR PAPERS**

**25 जुलाई**

**सुबह 9 बजे**

**REASONING**

**15 दिन लगातार, इस बार MTS पार**

## MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Q.1 In the morning prayer of a school, Chanchal was 8th from the front, while Prince was 11th from the back in the same row. If they swap their positions, Chanchal becomes 22nd from the front. What is the number of students in the row?

एक स्कूल की सुबह की प्रार्थना में, चंचल आगे से 8वें स्थान पर था, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, तो चंचल आगे से 22वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

(A) 32

(B)

(SSC MTS - 305

(C)

October 2021) Shift - I)

31



# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

SSC MTS - (02

August 2019) Shift-II

Q.2 Statements: Some utensils are lamps./ कुछ बर्तन लैंप हैं।

All lamps are trees./ सभी लैंप पेड़ हैं।

No tree is branch. / कोई पेड़ शाखा नहीं है.

Conclusions: I. Some utensils are branches. / कुछ बर्तन शाखाएँ हैं।

II. Some trees are lamps./ कुछ पेड़ लैंप हैं.

III. Some branches are lamps./ कुछ शाखाएँ लैंप हैं।





# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

SSC MTS - (05

August 2019) Shift-III

Q.3. Statements: All P are Q. / सभी P, Q  
हैं।

Some Q are Z. / कुछ Q,  
Z हैं।

Some Z are T. / कुछ Z,  
T हैं।

Conclusions: I. Some T are P. / कुछ  
T, P हैं।

कुछ P, Z हैं।

II. Some P are Z. /

III. No T is Z. / कोई T



# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

SSC MTS - (05

August 2019) Shift-III

Q.4 Statements: Some wood are chairs./ कुछ लकड़ी कुर्सियाँ हैं।

All chairs are mat. / सभी कुर्सियाँ चटाई हैं।

Conclusions: I. Some mat is wood. / कुछ चटाई लकड़ी है.

II. Some chairs are wood./ कुछ कुर्सियाँ लकड़ी हैं।

III. All wood are mats. / सभी लकड़ी चटाई हैं।

(A) Both conclusions II and III follow.



# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

SSC MTS - (05

August 2019) Shift-III

Q.5 Statements: All apples are grapes./ सभी सेब अंगूर हैं.

All grapes are berry./ सभी अंगूर बेरी हैं।

अंगूर बेरी हैं।

Conclusions: I. All apples are berries. / सभी सेब बेरी हैं.

II. All grapes are apples./ सभी अंगूर सेब हैं.

अंगूर सेब हैं.

(A) Only conclusion I follows

(B) Either conclusion I or II





# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

SSC MTS (05

October 2021) Shift-I

Q.6 Statements: Some Pans are Bottles./

कुछ पैन बोतलें हैं।

All Bottles are Mugs. / सभी बोतलें

मग हैं।

Conclusions: I. All Mugs are Bottles./ सभी

मग बोतलें हैं।

II. Some Mugs are Pans./ कुछ

मग पैन हैं।

(A) Neither conclusion I nor II

follows

(B) Only conclusion I follows





# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

SSC MTS (05

October 2021) Shift-I

Q.7 Statements: All Cups are Plates./  
सभी कप प्लेट हैं।

Some Plates are  
Saucers./ कुछ प्लेटें साँसर हैं।

Conclusions: I. All Plates are Cups./ सभी  
प्लेटें कप हैं।

II. Some Cups are  
Saucers./ कुछ कप साँसर हैं।

(A) Both conclusions I and

II follow







# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

SSC MTS (05 October

2021) Shift-II

Q.8 Statements: 1. Some bags are covers./ कुछ बैग कवर हैं.

2. All sheets are covers.

/ सभी शीट कवर हैं।

Conclusions: I. All covers are sheets./ सभी कवर शीट हैं।

II. Some bags are sheets.

कुछ बैग शीट हैं।

(A) Only conclusion I follows

(B) Only conclusion II

follows



# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Q.9 Statements: 1. No jungles is trees. / कोई जंगल पेड़ नहीं है.

2. Some trees are long. / कुछ पेड़ लम्बे हैं.

3. No plants is long. / कोई भी पौधे लम्बा नहीं है.

Conclusions: I. Some plants are trees./ कुछ पौधे पेड़ हैं.

II. All trees are long./ सभी पेड़ लम्बे हैं.

III. Some jungles are long./ कुछ जंगल लम्बे हैं.



# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)



Q.10 Select the diagram that correctly depicts the relationship between the classes below.

उस आरेख का चयन करें जो नीचे दी गई वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है

SSC MTS - (02

August 2019) Shift-II

Car, Wheel, Engine, Boat



चूहा






# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Q.11. From the given options select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the following classes:

दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है:

Furniture,  
फर्नीचर,

Chair, Desk









# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Q.12. From the given options select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the following classes:

दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है:






# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Q.13. From the given options select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the following classes:

दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है:

Answer







# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Q.14. From the given options select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the following classes:

दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है:

Be


शय



# MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Q.15. From the given options select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the following classes:

दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है:







MISSION SSC MTS-2023 (TARGET BATCH)

Thank you